

फरवरी 2019

1. उत्तर प्रदेश बजट: वर्ष 2019-20 के लिए 4.79 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट

प्रमुख जानकारी

- वर्ष 2019-20 में राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) और मूल्य वर्धित कर (VAT) से राजस्व प्राप्ति 77640 करोड़ रुपये जबकि उत्पाद शुल्क 31517 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- बजट में विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में वाईफाई का भी प्रावधान है।
- सरकार ने महिलाओं के उत्साहवर्द्धन के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरू की है जो राज्य की सभी लड़कियों को शादी या स्नातक उत्तीर्ण करने पर उचित धनराशि प्रदान करेगी। धनराशि लड़की के जन्म से लेकर कॉलेज स्नातक तक किस्तों में उनके खाते में जमा की जाएगी। यह उनके विवाह के लिए उपयोगी होगी।

2. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किशोरियों के लिए योजना शुरू की

- 11 वर्ष से 14 वर्ष की आयु की किशोरियों के लिए, जिन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों पर हर महीने की 8 तारीख को बालिका दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है और इस दिन बालिकाओं के लिए पोषण अभियान का आयोजन किया जाएगा।

3. गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की शुरुआत की गई

- यह योजना उन छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान करेगी, जिनके पास संयुक्त रूप से 2 हेक्टेयर तक का भू-स्वामित्व होगा।
- धनराशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी और यह सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

4. ताजमहल, आगरा का किला और कुतुब मीनार अब शीर्ष 10 राजस्व उत्पादक स्मारक होंगे

5. प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे की आधारशिला रखी

- प्रधानमंत्री मोदी ने अपने झांसी दौरे पर रक्षा गलियारे की आधारशिला रखी।
- सरकार ने देश में 2 रक्षा गलियारे स्थापित करने का फैसला किया, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में।
- झांसी उत्तर प्रदेश-रक्षा गलियारों के छह नोडल केंद्रों में से है।

6. सुपर कंप्यूटर 'परम शिवाय'

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT-BHU में सुपर कंप्यूटर 'परम शिवाय' का उद्घाटन किया।
- 833 टेराफ्लॉप क्षमता का सुपर कंप्यूटर 32.5 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है।
- भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था।



 **उड़ान** A 75-Day Course to Clear GS Paper of UPPSC Prelims [Start Free Trial](#)

7. वाराणसी में दशाश्वमेघ घाट के पास मान-महल में वर्चुअल एक्सपीरियंसल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तट पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत मान-महल में वर्चुअल एक्सपीरियंसल म्यूजियम (VEM) का उद्घाटन किया।

नोट:

- मान-महल राजा मान सिंह द्वारा 1600 ईस्वी में बनवाया गया था। वर्ष 1734 में, जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा इस स्मारक की छत पर एक वेधशाला का निर्माण करवाया गया था।
- VEM की स्थापना संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) द्वारा की गई थी।
- इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) ने इस VEM की डिजाइन तैयार करने और देखभाल करने में सहायता की है।

8. वाराणसी में पहला डीजल से इलेक्ट्रिक में परिवर्तित रेल इंजन

9. झांसी -खैरार खंड का विद्युतीकरण

- प्रधान मंत्री ने झांसी में 297 किमी लंबी झांसी-खैरार खंड विद्युतीकरण परियोजना का उद्घाटन किया।

10. पहाड़ी बांध नवीनीकरण परियोजना

- प्रधानमंत्री मोदी ने पहाड़ी बांध नवीनीकरण परियोजना की शुरुआत की।
- यह बांध धसान नदी पर है जो बेतवा नदी की एक दक्षिण तटीय सहायक नदी है।

11. बौद्ध पर्यटन सर्किट

- केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बौद्ध सर्किट के तहत पांच नई परियोजनाओं को मंजूरी दी।
- जिन पांच राज्यों में बौद्ध सर्किट के तहत परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है, वे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं।
- बौद्ध सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए चुने गए पंद्रह विषयगत सर्किटों में से एक हैं।

12. प्रधान मंत्री ने बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पाइप लाइन जल योजना का शिलान्यास किया

13. उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 'सारथी संदेश वाहिनी' वाहनों की शुरुआत की

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 33 'सारथी संदेश वाहिनी' वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- 'सारथी संदेश वाहिनी' राज्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक मिशन है।



14. पेट्रोटेक 2019

- पेट्रोटेक (PETROTECH) 2019 भारत का प्रमुख द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय तेल एवं गैस सम्मेलन तथा प्रदर्शनी है, जो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित की गई।
- यह एशिया का सबसे बड़ा तेल एवं गैस कार्यक्रम है।
- पेट्रोटेक 2019 का विषय- नवाचार और सहयोग के माध्यम से ऊर्जा की नई दुनिया को आकार देना' (Shaping the New Energy World through Innovation and Collaboration) है।

15. केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्कर उद्योग मंत्री हरमसिरत कौर बादल ने एक मेगा फूड पार्क की नींव मथुरा, उत्तर प्रदेश में रखी।

gradeup



उड़ान A 75-Day Course to Clear GS
Paper of UPPSC Prelims [Start Free Trial](#)